

**VEER BAHADUR SINGH
PURVANCHAL UNIVERSITY
JAUNPUR, UTTAR PRADESH**



7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the last five years.

Program on gender equity

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY
JAUNPUR – 222003
INDIA



Programs organized for gender sensitization (2017-22)

S.No.	Occasion observed/program organised	Date
1.	Organization of a training workshop on the prevention of child marriage, gender-based discrimination, and violence	21.12.2017
2.	Celebration of International Yoga day	21.06.2018
3.	Debate competition on the topic 'Social media is proving to be more of a curse than a boon for the youth of the country'	10.09.2018
4.	Rally by the girl students of the campus on the occasion of Nationals girl child's day	24.01.2019
5.	All India Inter University Women's Handball Competition	15.02.2019- 20.02.2019
6.	Health check-up and blood sample collection of the residents of Girls' hostel	24.10.2019
7.	Special lecture organized on the occasion of World Cancer Day to enlighten on lifestyle to be adopted as preventive measures against cancer	04.02.2020
8.	3 –day International webinar on psychological health and advances in psychiatry	27.05.2020- 29.05.2020
9.	Mega launch of Mission Shakti	17.10.2020
10.	Organization of webinar under the campaign for the safety and respect of women and girls, on the topic of developing understanding of child psychology among teachers and students.	20.10.2020
11.	Online workshop on cyber security and gender violence	21.10.2020
12.	Organization of a one-day webinar on the role of counselling in strengthening the emotional health of youth by the Mission Shakti of Veer Bahadur Singh Purvanchal University	07.12.2020
13.	Distribution of blankets, masks, soaps, biscuits etc. among the elderly women by the Hon'ble Vice-Chancellor.	29.12.2020


Registrar
V. B S. Purvanchal University
 Jaunpur

VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY
JAUNPUR – 222003
INDIA



14.	Seminar on women security and empowerment organized at the adopted village Kukri pur	05.02.2021
15.	Webinar on women rights and social awareness	27.02.2021
16.	Organization of Purvanchal Monsoon festival	16.08.2021
17.	Girls' Health Club and Health Check-up camp	15.09.2021
18.	Five day training camp organized for women	08.10.2021
19.	On the occasion of the 'International Day of the Girl Child', felicitation of women who gave birth to girl child	12.10.2021
20.	Pregnancy celebration/awareness ceremony	23.10.2021
21.	Awareness program for women voters	25.11.2021
22.	One day workshop to create awareness on good and bad touch and to encourage women to break their silence and speak out their voice	30.11.2021
23.	Felicitations of 60 women on the occasion of International Women's Day	08.03.2022
24.	World Health Day	07.04.2022
25.	Poster competition held in women's hostel for celebrating the Earth Day	22.04.2022
26.	Distribution of food grains among the poor women of Jasopur, Karanjakala Banwasi-Mushar Basti	07.05.2022
27.	World hypertension day	17.05.2022
28.	Inauguration of Girls Health Club and Women's Study Center	10.06.2022
29.	International Yoga Day celebration	21.06.2022
30.	Organization of the Purvanchal Monsoon Festival by the Women's Study Center	08.08.2022
31.	Celebration of Krishna Janmashtami at the Girls' hostel	19.08.2022
32.	World Mental Health Day	10.10.2022

M.
Registrar

V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

**Organization of a training workshop on the prevention of child marriage,
gender-based discrimination, and violence**

21.12.2017

A training workshop on prevention of child marriage, gender-based discrimination and violence was organized at the Research and Innovation Center of the University's Institute of Pharmacy. This event was organized under the joint aegis of UNICEF and National Service Scheme. In the workshop, the volunteers of the National Service Scheme were trained to make the society aware of gender discrimination and violence against women. Information about rights and laws was given by experts in the training workshop.



**VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY
JAUNPUR – 222003
INDIA**





Debate competition on the topic 'Social media is proving to be more of a curse than a boon for the youth of the country'

10.09.2018

A debate competition on the topic 'Social media is proving to be more of a curse than a boon for the youth of the country' was organized in the conference hall of the university's faculty building. In the competition, the students put forth their views on various dimensions of the effects of social media on youth's behaviour, thoughts, entertainment, social-family relations. Where the students raised questions on the intimacy with the people far away from social media and the increasing distance from the nearby people, while some called social media beneficial for the youth and some as destructive. In the debate competition, Pooja Shukla, a student of TD College, got the first position and Aman Kumar Gupta, a student of B.Tech Computer Science, got the second position.



Rally by the girl students of the campus on the occasion of National girl
child's day

24.01.2019



All India Inter University Women's Handball Competition

15.02.2019-20.02.2019

All India Inter University Handball Women's Championship was held at the University's Eklavya Stadium and teams from 15 universities of the country participated.



Health check-up and blood sample collection of the residents of Girls' hostel 24.10.2019

महिला छात्रावास की छात्राओं की हुई रक्त जांच

विश्वविद्यालय के द्रौपदी महिला छात्रावास में गुरुवार की सुबह 150 छात्रावासों के रक्त की जांच के लिए सैपल लिया गया। डॉ विकास सिंह की टीम ने छात्राओं के रक्त का सैपल लिया साथ ही छात्राओं को स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है अपने आहार को व्यवस्थित कर इसे सदैव सामान्य रखा जा सकता है।

महिला छात्रावास की चीफ वार्डन प्रो वंदना राय ने छात्राओं को स्वच्छता, साफ सफाई के बारे में बताया। इस अवसर पर द्रौपदी छात्रावास की वार्डन अन्नू त्यागी, रानी लक्ष्मी छात्रावास की वार्डन पूजा सक्सेना मौजूद रहे।

प्रस्तुतकर्ता वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर पर 01:49 No comments:



Saturday, 19 October 2019

http://vbspurvanchaluniversity.blogspot.com/2019/10/blog-post_24.html

**Special lecture organized on the occasion of World Cancer Day to
enlighten on lifestyle to be adopted as preventive measures against cancer**

04.02.2020

A special lecture was organized on the occasion of World Cancer Day in the Science Faculty of the University. Girls student were informed about healthy life style, diet, surrounding polluted environment, family history of disease and infections that are responsible for the disease. They were aware about the high level facilities provided by the government in the country and the state, due to which there will be success in the prevention and treatment of this disease.





3 –day International webinar on psychological health and advances in psychiatry

27.05.2020-29.05.2020

To improve the mental health of the individual, a three-day international webinar was organized by the Department of Applied Psychology, of the University, on the topic **"Improved Psychological Health: New Progress in the Field of Psychiatry"**.



Department of Applied Psychology
Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur (U.P.)
invites You To Participate in Live International Webinar Series
(27-29 May, 2020)
On
Promoting Psychological Well-Being: Recent Advancement in Psychotherapies

27 May, 2020

Sessions
Day 1 : 10:30 AM - 01:00 PM
Day 2 : 11:00 AM - 02:00 PM
Day 3 : 11:00 AM - 02:30 PM

Chief Guest
 Prof. G.P. Thakur
 Former Head, Department of Psychology
 M.G.K.V.P., Varanasi

Guest of Honor
 Prof. (Emeritus) S.N. Rai
 Department of Psychology C.S.C.
 University, Meerut

Guest of Honor
 Dr. Alpna Agrawal
 Associate Professor
 Department of Psychology CCS
 University, Meerut

Guest of Honor
 Prof. Ramjilal Srivastava
 Former Head, Department of Applied Psychology
 VBSPU, Jaunpur

Guest of Honor
 Dr. Sarabjoti Kaur Sran
 Assistant Professor
 Department of Psychology
 M.S.C. University of Delhi

27 May, 2020

Time 11:00 AM – 01:00 PM
Workshop on Mindfulness and Presence Oriented Therapy
By
Sandy Dias Andrade
Mindfulness and Presence Oriented Psychotherapist
and
Founder Director at Just Being Center, Pune

28 May, 2020

Time 11:00 AM – 12:20 PM
Neurofeedback Therapy in Anxiety Disorder
By
Dr. Anand Pratap Singh
Head, Department of Psychology and Well-Being
Gautam Buddha University, Greater Noida

Time 12:30 PM - 02:00 PM
Biofeedback assisted CBT: A Researcher-Practitioner Approach
By
Dr. Seema Sharma
M.Phil., NIMHANS
Senior Clinical Psychologist, Meerut

29 May, 2020

Time 11:00 AM - 12:10 PM
Cognitive Drill Therapy
By
Dr. Rakesh Jain
Senior Clinical Psychologist at
Institute of Mental Health and Hospital, Agra

Time 12:20 Pm – 01:20 PM
Re-Attach Therapy
By
Dr. Ashutosh Srivastava
Clinical Psychologist
Founder & CEO at Psyani India
President- BCPA, Board Member at Re-Attach Therapy

Time 01:30 PM - 02:30 PM
Stress It's Coping strategies in Today's scenario
By
Dr. Anumeha Rai
NLP Practitioner
Visiting Faculty in Amity University, Dubai



**Mega launch of Mission Shakti
17.10.2020**

Mission Shakti mega launch program was organized online in the University. Women were made aware under Mission Shakti mega launch. The Vice- Chancellor called upon women to become self-reliant, for this the university would provide a platform in the form of a shop for the sale of handicraft items made by women. In the program, Clinical Psychologist Usha Verma Srivastava said that women should not only become financially self-reliant, but their thinking should also be made self-reliant. She elaborated on topics like gender discrimination and domestic violence. As a special guest, Deputy SP Prem Prakash said that there is no discrimination between boys and girls anywhere in the constitution and law. There is a need to make people aware for this. Discussing in detail about various sections related to women safety, cyber security, he said that women have to raise their voice with caution against injustice. Advocate Mrs. Manju Shastri discussing in detail the Pasco Act, dowry harassment, said that India cannot become a world guru until women become self-reliant.



Organization of webinar under the campaign for the safety and respect of women and girls, on the topic of developing understanding of child psychology among teachers and students.

20.10.2020

Tuesday, 20 October 2020

बच्चों में सीख विकसित करने में शिक्षक की अहम भूमिका: प्रो. रामजी लाल



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए चलाया जाने वाले अभियान के तहत मंगलवार को शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में बाल मनोविज्ञान की समझ विकसित करने संबंधी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया।

बतौर मुख्य अतिथि प्रो.रामजी लाल श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों में सीख विकसित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक यदि उसके इमोशनल वेल् बीइंग एवं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर ध्यान दें कि उस बच्चे में कैसा विकसित हो रहा है तो निश्चित ही वह आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनेगा जो समाज एवं राष्ट्र के दृष्टिकोण से भी हितकारी होगा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. सलोनी प्रिया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने कहा की जेंडर के प्रति भावितियां खत्म करनी होंगी, क्योंकि समाज में जेंडर की प्रति बहुत सारी भावितियां व्याप्त है। लड़की या लड़का होना उसकी पहचान हो सकती है उसका शीलगुण नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियानों का निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

http://vbspurvanchaluniversity.blogspot.com/2020/10/blog-post_20.html

Online workshop on cyber security and gender violence

21.10.2020

Wednesday, 21 October 2020

सोशल एकाउंट को स्ट्रांग बनाएं महिलाएं : डॉ. अर्चना शिवहरे

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कुलपति निर्मला एस मौर्य के अभिप्रेरणण से साइबर सुरक्षा एवं लैंगिक हिंसा पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. अर्चना शिवहरे पुलिस महानिरीक्षक राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो गांधीनगर ने जुड़कर सभी शिक्षकों एवं छात्रों को साइबर सुरक्षा एवम् लैंगिक हिंसा के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया।



उन्होंने कहा कि महिला एवं बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि वेबसाइट से उनकी फोटो लेकर इंटरनेट पर दुरुपयोग किया जा सकता है जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है ऐसे में महिलाओं को अपने अकाउंट का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए नाम जन्मदिन आदि का पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। अलग-अलग एकाउंट का पासवर्ड अलग-अलग बनाना चाहिए, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। पब्लिक डोमेन में अपने मोबाइल का ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन नहीं रहना चाहिए।

http://vbspurvanchaluniversity.blogspot.com/2020/10/blog-post_21.html

**Organization of a one-day webinar on the role of counselling in strengthening the emotional health of youth by the Mission Shakti of Veer Bahadur Singh Purvanchal University
07.12.2020**

Monday, 7 December 2020

युवाओं के भावनात्मक स्वास्थ्य को न करें नजरअंदाज – डॉ सलोनी



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मिशन शक्ति द्वारा युवाओं के भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करने में काउंसलिंग की भूमिका विषयक एक दिवसीय कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया।

इस अवसर पर बतौर मुख्य वक्ता उम्मीद काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज गुरुग्राम की निदेशक डॉ सलोनी प्रिया ने कहा कि आज युवाओं के भावनात्मक स्वास्थ्य को समझने की जरूरत है। इसको नजरअंदाज करने से युवाओं के व्यवहार, संबंध और कैरियर सभी प्रभावित होते हैं। युवा आज सपनों की दुनिया में जी रहे हैं काउंसलर उन्हें वास्तविकता से परिचित कराने में बड़ी भूमिका अदा करें। उन्होंने कहा कि परिवार में महिलाओं के साथ अलग तरह का व्यवहार न करें, रिश्ते वही सफल होते हैं जहाँ हम एक दुसरे का सम्मान करते हैं।

<http://vbspurvanchaluniversity.blogspot.com/2020/12/blog-post.html>

Distribution of blankets, masks, soaps, biscuits etc. among the elderly women. 29.12.2020

Tuesday, 29 December 2020

कुलपति ने वृद्धों को वितरित किया कम्बल



शहर के प्रेमराजपुर गांव में स्थित वृद्धाश्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस. मोर्य ने आश्रम के 50 से अधिक बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों को निजी धन से कंबल, मास्क, साबुन फल, बिस्किट वितरित किया तथा कोविड-19 के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वृद्धाश्रम आधुनिक समाज की देन है वर्तमान समय में लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़े नहीं बल्कि घटनी चाहिए। उन्होंने आश्रम के बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों के साथ ढाई घंटे समय दिया और कहा कि उनके बीच में आकर वह अपने आपको धन्य समझ रही हैं और जब भी अवसर मिलेगा वह आपके बीच पुनः आने का प्रयास करेंगी। इस अवसर पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ विजय कुमार सिंह, कार्यक्रम समन्वयक रासेयो राकेश कुमार यादव, मिशन शक्ति समन्वयक डॉ जगन्धरी श्रीवास्तव, समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार यादव, महिला संरक्षण एवं बाल कल्याण अधिकारी चंदन राय, आश्रम के प्रबंधक गिरिजेश राय संचालक गोविंद तिवारी, मनोज श्रीवास्तव, डॉ अवधेश कुमार, मनोज कुमार, मोर्य, सत्यम सुंदरम मोर्य, आयुष यादव, शिवम मोर्य रघुनंदन आदि उपस्थित रहे।

http://vbspurvanchaluniversity.blogspot.com/2020/12/blog-post_29.html

Seminar on women security and empowerment organized at the adopted village Kukripur 05.02.2021



**Webinar on women rights and social awareness
27.02.2021**

Saturday, 27 February 2021

महिला अधिकार और सामाजिक जागरूकता विषयक वेबिनार का हुआ आयोजन



वीर बहादुर सिंह पूर्वचल विश्वविद्यालय के मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिला अधिकार एवं सामाजिक जागरूकता

विषयक वेबिनार में वक्ताओं द्वारा महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य ने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। महिलाएं सब की बात सुने लेकिन जो अंतिम निर्णय हो उसे अपने बुद्धि विवेक से लेना होगा। उन्होंने कहा कि नारी अबला नहीं सबला है, नारी धैर्यवान है, सिर्फ जरूरी है महिलाओं के आत्मसम्मान को जगाना। वेबिनार की मुख्य अतिथि विज्ञान संकाय की आचार्य डॉ वंदना राय ने महिलाओं से संबंधित कानूनी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों को हमें खुद जानना होगा और उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। सहायक कुलसचिव बबीता सिंह ने कहा कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है लेकिन दक्षिणपूर्ण है कि आज भी निर्णय लेने के अधिकार से वह वंचित है। उन्होंने

Z3R1xlyyUr8nX-vrMQCLcBGAsYHQ/s860/janhavi.jpg की अपनी बात रखी। महिला महों पर

http://vbspurvanchaluniversity.blogspot.com/2021/02/blog-post_27.html

**Organization of Purvanchal Monsoon festival
16.08.2021**



**Girls' Health Club and Health Check-up camp
15.09.2021**



**Five days training camp organized for women
08.10.2021**



**On the occasion of the 'International Day of the Girl Child', felicitation of
women who gave birth to girl child
12.10.2021**



**Pregnancy celebration/awareness ceremony
23.10.2021**



**Awareness program for women voters
25.11.2021**



Contd.



**One day workshop to create awareness on good touch and bad touch and to encourage women to break their silence and speak out their voice
30.11.2021**



**Felicitation of 60 women on the occasion of International Women's Day
08.03.2022**



**World Health Day
07.04. 2022**



**Poster competition held in women's hostel for celebrating the Earth Day
22.04.2022**



**Distribution of food grains among the poor women of Jasopur,
Karanjakala Banwasi-Mushar Basti
07.05.2022**



**World hypertension day
17.05.2022**

**समय पर जांच, व्यायाम से कम
होंगे उच्च रक्तचाप : प्रो.वंदना राय**

जौनपुर धारा

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में मंगलवार को वर्ल्ड हाइपरटेंशन-डे मनाया गया। इस अवसर पर प्रो.वंदना राय ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष उच्च रक्तचाप के कारण 16 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

यह बीमारी दिन प्रतिदिन भयानक रूप लेते जा रही है। व्यायाम की कमी व शहरी दिनचर्या के कारण शहरों में ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले अधिक लोग तनाव के शिकार हो रहे हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि उच्च रक्त चाप होने पर ये शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। मुख्यरूप से हृदय मस्तिष्क और किडनी को ज्यादा प्रभावित करता है। प्रतिवर्ष लाखों लोग हृदय से संबंधित बीमारियों व स्ट्रोक का शिकार होते



हैं। यह युवाओं में भी चपेट में रही है।

उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लिए अनेकों दवाएं उपलब्ध हैं जिन्हें समय पर लेने से इस बीमारी का प्रबंधन किया जा सकता है। इस अवसर पर डॉ.प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रतिदिन लगभग तीस मिनट से अधिक व्यायाम करने से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, व प्रतिदिन आने वाले तनाव से बचने

के लिए योग व सकारात्मक मानसिक स्थिति को विकसित कर हम इस रोग से बच सके हैं। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को इस बात की शपथ दिलाई गई की वह प्रतिदिन लगभग 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम अवश्य करेंगे, साथ ही अन्य लोगों को भी इस बीमारी के बारे में जागरूक करेंगे। कार्यक्रम का संचालन शुभम सिंह धन्यवाद ज्ञापन अमृता चौधरी ने किया।

**Organization of the Purvanchal Monsoon Festival by the Women's Study
Center 08.08.2022**



Participants with appreciation certificate in Purvanchal Mansoon Festival



Celebration of Krishna Janmashtami at the Girls' hostel

19.08.2022



World Mental Health Day

10.10.2022

